



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 131]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 1982/वैशाख 7, 1904

No. 131]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 1982/VAISAKHA 7, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1982

सा० का० नि० 356 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम 1966 के नियम 4 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "असम-मेघालय" सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियन्त्रण) विनियम, 1966 में आगे संशोधन करने के लिए एनद्वांरा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियन्त्रण) तृतीय संशोधन विनियम, 1982 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियन्त्रण) विनियम, 1966 की अनुसूची में "असम-मेघालय" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:—

"असम-मेघालय"

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद :

49

असम

मुख्य वन पाल .

1

अपर मुख्य वनपाल

1

103 GI/82

वनपाल	5
वनपाल, विकास	1
वनपाल, प्राथमिक सर्किल	1
वनपाल, मुख्यालय	1
वनपाल, सामाजिक कानिजी	1
उप वनपाल, पूर्व असम तथा पश्चिम असम, वन्य जन्तु प्रभाग	2
उप वनपाल	18
उप वनपाल, असम राज्य विधियाघर	1
कार्यकारी योजना अधिकारी	3
वनोपयोग अधिकारी	1
योजना अधिकारी	2
वनवृक्ष विज्ञानी	1
मेघालय	
मुख्य वनपाल	1
वनपाल, विकास	1
भू-संरक्षण निदेशक	1
उपवनपाल	3
उप वनपाल, प्रशिक्षण	1
कार्यकारी योजना अधिकारी	1
योजना अधिकारी	1
वन वृक्ष विज्ञानी	1

49

2. उपर्युक्त 1 के 20% के हिसाब से केन्द्रीय सरकार के अधीन वर्गित पद	10
	59
3. भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद	19
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद	40
5. उपर्युक्त 4 के 15% के हिसाब से प्रतिनियुक्ति रिजर्व	8*
6. उपर्युक्त 4 के 11% के हिसाब से छुट्टी रिजर्व	4
7. उपर्युक्त 4 के 20% प्रतिशत के हिसाब से कनिष्ठ पद	8
8. उपर्युक्त 4 के 10% के हिसाब से प्रशिक्षण रिजर्व	4
सीधी भर्ती पद	64
पदोन्नति पद	19
कुल प्राधिकृत पद संख्या	83

*मेघालय स्कांध के लिए 2 तबर्ध वृद्धि राहित

[सं० 16016/17/80-अ० भा० से० (4)-क]

सरकारी आसाम राज्य के लिए मुख्य विनियमन दिनांक 31-10-1966 के भारत के असाधारण राजपत्र में सा० क० नि० संख्या 1672 के रूप में प्रकाशित दिनांक 31-10-1966 की अधिसूचना संख्या 6/1/66-अ० भा० से० (iv) द्वारा अधिसूचित किए गए थे तथा आसाम मेघालय के संयुक्त संवर्ग पर संख्या को दिनांक 20-1-1972 की सा० क० नि० संख्या 45 (ई) के रूप में दिनांक 20-1-1972 की अधिसूचना संख्या 6/41/71-अ० भा० से० (iv) के दिनांक 26-2-1977 की सा० क० नि० संख्या 93 (ई) के रूप में दिनांक 26-2-1977 की अधिसूचना संख्या 16016/39/75 अ० भा० से० (iv) तथा दिनांक 6-1-1978 की सा० क० नि० संख्या 13 (ई) के रूप में दिनांक 6-1-1978 की अधिसूचना संख्या 16016/29/75 अ० भा० से० (iv) के द्वारा संशोधित किया गया है।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th April, 1982

G.S.R. No. 356 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 4 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government, in consultation with the Government of Assam and Meghalaya, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, for the heading "Assam

and Meghalaya" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:

"Assam and Meghalaya"

1. Senior posts under the State Government 49
ASSAM

Chief Conservator of Forests	1
Additional Chief Conservator of Forests	1
Conservator of Forests	5
Conservator of Forests, Development	1
Conservator of Forests, Economic Circle	1
Conservator of Forests, Headquarters	1
Conservator of Forests, Social Forestry	1
Deputy Conservator of Forests	18
Deputy Conservator of Forests, Eastern Assam and Western Assam, Wild life Division.	2
Deputy Conservator of Forests, Assam State Zoo	1
Working Plan Officer	3
Forests Utilisation Officer	1
Planning Officer	2
Silviculturist	1

MEGHALAYA

Chief Conservator of Forests	1
Conservator of Forests, Development	1
Director of Soil Conservation	1
Deputy Conservator of Forests	3
Deputy Conservator of Forests, Training	1
Working Plan Officer	1
Planning Officer	1
Silviculturist	1

2. Senior posts under the Central Government 10
(a) 20% of 1 above 59

3. Posts to be filled by promotion in accordance with rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966	19
4. Posts to be filled by direct recruitment	40
5. Deputation Reserve (a) 15% of 4 above	8*
6. Leave Reserve (a) 11% of 4 above	4
7. Junior posts (a) 20% of 4 above	8
8. Training Reserve (a) 10% of 4 above	4
Direct Recruitment Posts	64
Promotion Posts :	19
Total Authorised Strength	83

*Includes also an ad hoc increase of 2 for the Meghalaya Wing.

[No. 16016/17/80-AIS(IV)-A]

The Principal Regulations for erstwhile Assam State were notified vide Notification No. 6/1/66-AIS(IV) dated 31st October, 1966 as GSR No. 1672 published in the Gazette of India Extraordinary dated 31st October, 1966 and the cadre strength for

the joint cadre of Assam and Meghalaya has been amended vide Notification No. 6/41/71-AIS(IV)-A dated 20th January, 1972 as GSR No. 45(E) dated 20th January, 1972, Notification No. 16016/29/75-AIS(IV) dated 26th February, 1977 as GSR No. 93(E) dated 26-2-1977, Notification No. 16016/29/75-AIS(IV)-A dated 6th January 1978 as GSR No. 13(E) dated 6-1-1978

सां कां निं 357 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 के नियम 11 के साथ पठित अधिनियमित भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम तथा मेघालय सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन नियम, 1982 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में:—

(क) अनुसूची III क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के समय-वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों, तात्त्विक के प्रथम कालम में आने वाली "असम तथा मेघालय" सम्बन्धी प्रविष्टि और द्वितीय तथा तृतीय कालमों में तत्संबन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:—

"असम तथा मेघालय"

रुसम :

मुख्य वन पाल	2500-125/2-2750
अपर-मुख्य वनपाल	2250-125/2-2500
वनपाल	1800-100-2000
वनपाल विकास	1800-100-2000
वनपाल, प्राथमिक सर्किल	1800-100-2000
वनपाल, मुख्यालय	1800-100-2000
वनपाल, सामाजिक बानिकी	1800-100-2000
मेघालय :	
मुख्य वन पाल	2500-125/2-2750
वनपाल, विकास	1800-100-2000
भू-संरक्षण निदेशक	1800-100-2000

(ख) अनुसूची-III-ख में राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ समय-वेतनमान में वेतन के प्रतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित वरिष्ठ समय वेतनमान वाले पद प्रथम कालम में आने वाली "असम तथा मेघालय" सम्बन्धी प्रविष्टि और द्वितीय कालम की तत्संबन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:—

"असम तथा मेघालय"

असम :

उप वनपाल पूर्व असम तथा पश्चिम असम, वन्य जंतु प्रभाग
उप वनपाल
उप वनपाल, असम राज्य विज्ञानाधर
कार्यकारी योजना अधिकारी

वनोपयोग अधिकारी

योजना अधिकारी

वन वृक्ष विज्ञानी

मेघालय :

उप वनपाल

उप वनपाल, प्रशिक्षण

कार्यकारी योजना अधिकारी

योजना अधिकारी

योजना अधिकारी

वन वृक्ष विज्ञानी

[सां 16016/17/80 प्र० भा० से० (4)-ख]

पी० एम्० कोह्लो, भारत सचिव

मुख्य नियम दिनांक 2-3-1968 को, अधिसूचना संख्या 2/11/65 प्र० भा० से० (iv) दिनांक 2-3-1968 को सां कां निं संख्या 482 के रूप में अधिसूचित किए गए थे तथा आसाम एवं मेघालय के संयुक्त संघर्ष के संबंध में वेतन अनुसूची को दिनांक 20-1-1972 की अधिसूचना संख्या 6/41/71 प्र० भा० से० (iv)-ख सां कां निं संख्या 46 (ई) दिनांक 20-1-1972 एवं दिनांक 6-1-1978 की अधिसूचना संख्या 16016/29/75 प्र० भा० से० (iv)-ख की सां कां निं संख्या 14 (ई) दिनांक 6-1-1978 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।

G.S.R. 357 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, the Central Government, in consultation with the Governments of Assam and Meghalaya, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Indian Forest Service (Pay) Third Amendment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968:—

(a) In Schedule III-A—Posts carrying pay above the time scale pay in the Indian Forest Service under the State Governments, in the Table for the entry "Assam and Meghalaya" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely:—

"ASSAM AND MEGHALAYA"

ASSAM;

Chief Conservator of Forests	2500-125/2-2750
Additional Chief Conservator of Forests	2250-125/2-2500
Conservator of Forests	1800-100-2000
Conservator of Forests, Development	1800-100-2000
Conservator of Forests, Economic Circle	1800-100-2000
Conservator of Forests, Headquarters	1800-100-2000
Conservator of Forests, Social Forestry	1800-100-2000

MEGHALAYA :

Chief Conservator of Forest	2500-125/2-2750
-----------------------------	-----------------

Conservator of Forests, Development 1800-100-2000
 Director of Soil Conservation 1800-100-2000

- (b) In Schedule-III-B—Posts carrying pay in the senior time-scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time-scale for the entry "Assam and Meghalaya" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely

"ASSAM AND MEGHALAYA"

ASSAM;

Deputy Conservator of Forests
 Deputy Conservator of Forests, Eastern Assam and Western Assam, Wild Life Division.
 Deputy Conservator of Forests, Assam State Zoo
 Working Plan Officer
 Forest Utilisation Officer

Planning Officer

Silviculturist

MEGHALAYA ;

Deputy Conservator of Forests
 Deputy Conservator of Forests, Training
 Working Plan Officer
 Planning Officer
 Silviculturist.

[No. 16016/17/80-AIS(IV)-B]

P. N. KOHLI, Under Secy.

The Principal Rules were notified vide Notification No. 2/11/65-AIS(IV) dated 2-3-1968 as G.S.R. No. 482 dated 2-3-1968 and the Pay Schedule for Assam and Meghalaya has been amended vide Notification No. 6/41/71-AIS(IV)-B dated 20-1-1972 as G.S.R. No. 46(E) dated 20-1-1972 and Notification No. 16016/29/75-AIS(IV)-B dated 6-1-1978 as G.S.R. No. 14(E) dated 6-1-1978.